



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

### असाधारण

प्रयागराज, बुधवार, 02 जून, 2021 ई०

(ज्येष्ठ 12, 1943 शक संवत्)

#### कार्यालय, जिला निर्वाचन (पंचायत एवं नगरीय निकाय), आजमगढ़

संख्या 1102/जि०नि०का०/पं० एवं न०नि०/सूचना/2021

दिनांक : 02 जून, 2021 ई०

#### सूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र०, लखनऊ की अधिसूचना संख्या 3753/रा०नि०आ०अनु०-3/पं०नि०/46-21/2021, दिनांक 31 मई, 2021 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2021 के दौरान कतिपय पदों पर कोई नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त न होने तथा निर्वाचन सम्पन्न होने के पश्चात् विजयी उम्मीदवार के निधन या अन्य कारण से रिक्त रह गये पदों/स्थानों पर निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है। उक्त के क्रम में मैं, राजेश कुमार, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), आजमगढ़ एतद्वारा आयोग की अधिसूचना संख्या 709/रा०नि०आ०अनु०-3/पं०नि०/20-21/2021, दिनांक 26 मार्च, 2021 के क्रम में उक्तानुसार जनपद के रिक्त सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के स्थानों/पदों (संलग्न सूची के अनुसार) का निर्वाचन, जो मा० न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो, को छोड़कर निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार कराये जाने का निर्देश देता हूँ—

#### समय-सारिणी

नामांकन का दिनांक व समय	नामांकन-पत्रों की संवीक्षा का दिनांक व समय	उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक व समय	प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
06 जून, 2021 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	06 जून, 2021 (अपराह्न 05.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	07 जून, 2021 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	07 जून, 2021 (अपराह्न 03.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	12 जून, 2021 (पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराह्न 06.00 बजे तक)	14 जून, 2021 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

2—ग्राम पंचायतों के प्रधानों, सदस्यों एवं क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के स्थानों/पदों पर निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुये निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा दिनांक 03 जून, 2021 को सूचना निर्गत की जायेगी। निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम को प्रमुख स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराते हुये व्यापक प्रचार कराया जायेगा और गांवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्ट पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जायेगा। उक्त निर्वाचन उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन), नियमावली, 1994 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा। निर्वाचन अधिकारी की सूचना निर्गत किये जाने के दिनांक अर्थात् दिनांक 03 जून, 2021 से नामांकन-पत्रों का विक्रय किया जायेगा।

3—उपर्युक्त निर्वाचन में प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के नामांकन-पत्रों का विक्रय, नामांकन-पत्रों के दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर होगा तथा मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा सम्बन्धित विकास खण्ड के अन्तर्गत निर्धारित मतगणना स्थल पर की जायेगी।

4—उपर्युक्त समय-सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

राजेश कुमार,  
जिला मजिस्ट्रेट/  
जिला निर्वाचन अधिकारी,  
(पंचायत एवं नगरीय निकाय),  
आजमगढ़।